

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.02.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 230 का उत्तर

रेलवे कर्मचारियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

230. श्री रघु राम कृष्ण राजूः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाने और रेल कर्मचारियों और जनता के लिए पोस्टर प्रदर्शित करने, पर्चे बांटने और इस संबंध में सेमिनार आयोजित कर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ख) इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और इस प्रकार के कार्यक्रम कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऊर्जा संरक्षण के लिए समग्र प्रयास करने के लिए जागृत करने हेतु इस तारीख से पहले ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। रेल कर्मचारियों और आम जनता में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को लेकर जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां की जाती हैं। रेलों द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- i. सभी रेलों में सभी कर्मचारियों और वेंडरों आदि को पैम्फलेट बांट कर जन जागरूकता अभियान चलाना।
- ii. रेलवे स्टेशनों, सेवा भवनों, कारखानों और रेलों के अन्य संबद्ध कार्यालयों जैसे मुख्य स्थानों पर बैनरों और पोस्टरों का प्रदर्शन।
- iii. रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जागरूक करना।
- iv. प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रदर्शन।
- v. यात्रियों और आम जनता को ऊर्जा संरक्षण के प्रति वचनबद्ध करने हेतु रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले द्वारा ऊर्जा संरक्षण टैंप्लेटों का प्रदर्शन।
- vi. ऊर्जा संरक्षण पर सूचना प्रसारण के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
- vii. ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, चित्रकारी और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आदि भी आयोजित की जाती हैं।

रेलों द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और सक्रिय सहभागिता देखी जाती है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 230
TO BE ANSWERED ON 02.02.2022**

AWARENESS PROGRAMMES FOR RAILWAY EMPLOYEES

230. SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to State:

- (a) the steps being taken for observing Energy Conservation Week along with conducting various awareness programmes for railway employees and the public by displaying posters, distributing pamphlets and organising seminars in this regard; and**
- (b) the response received in this regard and the time by when such programmes are likely to be conducted?**

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) and (b) Every year, 14th December is celebrated as Energy Conservation Day over Indian Railways (IR) and Energy Conservation week is celebrated around this date to create awareness for making all efforts on energy conservation. Various events and activities are undertaken for creating awareness among the Railway employees and the general public towards the need for energy conservation. Some of the activities undertaken by Railways are as follows:

Contd.2.../.

- i. Mass awareness drives across the Railways by distributing pamphlets to all the staff, vendors etc.**
- ii. Displaying of banners and posters at major locations like Railway stations, service buildings, workshops and other associated offices of Railways.**
- iii. Campaign to create awareness among Railway staffs and their Family members.**
- iv. Display of energy efficient appliances to create awareness through exhibitions.**
- v. Display of energy conservation templates through electronic display at Railway stations to engage passengers and general public towards energy conservation.**
- vi. Seminars are organized for dissemination of information on energy conservation.**
- vii. Quiz competitions, painting and essay writing competitions etc are also organized to create awareness towards the need of energy conservation.**

Enthusiastic response and active participation is observed during the celebration of Energy conservation week organized by the Railways.
